



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939

No. 247]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2017

फा. सं. 25-02/2017-एल आई.—राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र सं. 85 (भाग I), खण्ड I, असाधारण) में दिनांक 28 अप्रैल 2011 को प्रकाशित तथा भारत के राजपत्र सं. 240 दिनांक 18-10-2012 की अधिसूचना के तहत आगे संशोधित “डाकघर जीवन बीमा नियमावली, 2011” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

(क) नियम 6 के उप नियम (10) के नीचे निम्नलिखित उप नियम अंतर्वेशित की जाती है:—

- (11) उन सभी निजी शिक्षण संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि के कर्मचारियों (शिक्षण/गैर-शिक्षण) जो मान्यताप्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक बोर्डों/केन्द्र/राज्य सरकारों) जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, मुक्त विद्यालय आदि से सम्बद्ध हैं।
- (12) पेशेवरों जैसे डॉक्टर (जो कि सरकारी/ निजी चिकित्सालयों से परास्नातक पाठ्यक्रम कर रहे हों, रेजिडेंट डॉक्टर जो कि संविदा/ स्थाई आधार पर किसी भी सरकारी/निजी चिकित्सालय में कार्यरत हों आदि सहित) अभियंता(जो कि गेट प्रवेश परीक्षा पास करने के उपरान्त मास्टर/परास्नातक डिग्री कर रहे हों, सहित) प्रबंधन सलाहकार, सनदी लेखाकार जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान में पंजीकृत हों, वास्तुकार, विधिवेत्ता जो कि बार काउन्सिल ऑफ ऑफ इंडिया/राज्य में पंजीकृत हों, बैंकर जो कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में एवं उसके सहायक बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अधिसूचित व्यापारिक बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों सहित, आदि।
- (13) एनएसई(राष्ट्रीय शेयर बाजार) तथा बीएसई (मुम्बई शेयर बाजार) के सूचिवद्ध कंपनियों के कर्मचारी जो सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक एवं वित्त, स्वास्थ्य/औषधि, उर्जा/विजली, दूरसंचार, आधारभूत क्षेत्र आदि में कार्यरत हों तथा जो भविष्य निधि/ग्रेच्युटी के अन्तर्गत हों और/अथवा जिनके अवकाश संबंधी रिकार्ड उनके स्थापना में रखा जाता हो।

संशोधन/आशोधन जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

विश्वपावन पति, मुख्य महा प्रबंधक (पीएलआई)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Posts)****(DIRECTORATE OF PLI)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2017

F. No. 25-02/2017-LI.—The President is pleased to make the following amendments to “Post Office Life Insurance Rules, 2011” published on 28th April, 2011 in Gazette of India, No. 85 (Part-I, Section-1 Extraordinary) and further amended *vide* Notification in Gazette of India No. 240 dated 18-10-2012.

(a) Following sub rules are added below sub rule (10) of Rule 6:

- (11) Employees (teaching/non-teaching staff) of all private educational institutions/schools/colleges etc. **affiliated to recognized Boards** (recognized by Centre /State Governments) of **Secondary/ Senior Secondary education** i.e. CBSE, ICSE, State Boards, Open Schools, etc.
- (12) Professionals such as **Doctors** (including Doctors pursuing Post Graduate degree courses through any Govt /Private Hospitals, Residents Doctors employed on contract/permanent basis in any Govt/Private Hospitals etc), **Engineers** (including Engineers pursuing Master’s/Post Graduate degree after having passed GATE entrance test), **Management Consultants, Chartered Accountants** registered with Institute of Chartered Accountants of India, **Architects, Lawyers** registered with Bar Council of India/States, **Bankers** working in Nationalised Banks and its Associate Banks, Foreign Banks, Regional Rural Banks, Scheduled Commercial Banks including Private Sector Banks etc.
- (13) Employees of listed companies of **NSE (National Stock Exchange)** and **Bombay Stock Exchange (BSE)** in IT, Banking & Finance, Healthcare/Pharma, Energy/Power, Telecom, Infrastructure Sector etc, where employees are covered for Provident Fund /Gratuity and/or their leave records are maintained by the establishment.

The amendments/modifications shall be effective from the date of issue.

VISHVAPAVAN PATI, Chief General Manager (PLI)